

सरायढेला में घर में बन रही थी नकली शराब, छापेमारी को पहुंची पुलिस तो हाथ-पांव जोड़ने लगे लोग



जागरण संवाददाता, धनबाद: धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र स्थित वार्ड 28, सुगियाडीह में शनिवार को पुलिस ने एक घर में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में अवैध नकली शराब और खाली बोटलें जब्त की हैं। मामले में पुलिस ने घर के मालिक सागर कुमार बरनवाल को आरोपित बनाया है। हालांकि वह मौके पर नहीं मिला। उत्पाद विभाग उसकी तलाश कर रहा है।

विभाग के दारोगा कुंदन कौशल ने बताया कि विभाग ने लाखों रुपए के नकली शराब बरामद किए हैं। इसके अलावा वहां कई बोटल व रैपर भी बरामद किए गए हैं। इसमें ब्लेंडर्स, स्ट्रीलिंग, सिग्नेचर, आरएस आदि शराब की बोटलें शामिल हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की दोपहर करीब एक बजे जब पुलिस यहां छापेमारी को पहुंची तो अफरातफरी मच गई। घर में मौजूद लोग पुलिस के सामने हाथ-पैर जोड़ने लगे। छापेमारी को पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि लंबे समय से इस घर में अवैध शराब निर्माण की सूचना मिल रही थी। बताया कि पते के सत्यापन के बाद शनिवार को सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर यहां छापेमारी की गई। इस दौरान घर से भारी मात्रा में निर्मित शराब की बोटलों के अलावा खाली बोटल और लेबल आदि बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि यहां 8 पीएम समेत अन्य लोकल ब्रांड की शराब बनाई जा रही थी।

दो वर्षों से चल रही थी शराब फैक्ट्री

सुगियाडीह में मिनी अवैध शराब फैक्ट्री पिछले दो वर्षों से चल रही थी। स्थानीय लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उत्पाद विभाग को इसकी जानकारी दी। सरायढेला क्षेत्र में पहली बार कोई अवैध मिनी शराब फैक्ट्री पकड़ाई है। इससे पहले शहरी क्षेत्र में भूली में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी। हालांकि हमेशा से टुंडी, मनियाडीह, पूर्वी टुंडी आदि क्षेत्रों में अवैध मिनी की शराब फैक्ट्री पकड़ी जाती रही है। इस संबंध में सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि एक-दो फैक्ट्री और भी शहरी क्षेत्र में चलने की सूचना उन्हें मिल रही है, जल्द उन इलाकों को कंपर्म कर वहां भी छापेमारी की जाएगी। वहीं सागर वर्णवाल को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाएगा।

पिता बोले- कई बार मना किया था बेटे को, लेकिन वह नहीं माना

इधर, आरोपित के पिता दिनेश कुमार ने बताया कि उन्होंने कई बार इस अवैध कारोबार के खिलाफ अपने बेटे को टोका था, लेकिन वह नहीं माना। उन्होंने कहा कि वह कहां से रैपर और सारी चीजें लाता था, शराब कहां खपाता था, यह परिवार के लोगों को नहीं मालूम। मामले की पड़ताल फिलहाल जारी है।

घर के बगल में ही है कोचिंग संस्थान

जिस घर में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, उसके ठीक बगल में ही एक कोचिंग संस्थान भी है। शनिवार को छापेमारी के दौरान आसपास के लोगों का कहना था कि इस अवैध शराब फैक्ट्री का दुष्प्रभाव यहां पढ़ने आने वाले छात्रों पर भी पड़ सकता था।

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/dhanbad-police-raided-a-house-at-sugiyadih-and-found-illegal-liquor-factory-in-the-house-22916897.html>